

नेशनल फर्टिलाइज्रस लिमिटेड

भारत सरकार का उपक्रम

कॉरपोरेट कार्यालय: ए-11, सैक्टर-24, नोएडा - 201301

जिला गौतम बुद्व नगर (उ.प्र.),

दूरभाष : 0120-2412294, 2412445, फैक्स : 0120-2412397



NATIONAL FERTILIZERS LIMITED

Dated: 06.09.2025

(A Govt. Of India Undertaking)

Corportate Office: A-11, Sector-24, Noida-201301,

Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.)

Ph.: 0120-2412294, 2412445, Fax: 0120-2412397

Ref No. NFL/SEC/SE/1859

National Stock Exchange of India Ltd.	BSE Limited		
Exchange Plaza,	Corporate Relationship Department,		
C-1, Block-G, Bandra Kurla	1st Floor, New Trading Wing, Rotunda		
Complex, Bandra (E),	Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers,		
Mumbai-400051	Street, Mumbai- 400001		
NSE Symbol- NFL	BSE Scrip Code -523630		

Sub: Newspaper clippings of Addendum to 51st Annual Report – Comments of Comptroller & Auditor General of India (C&AG).

Dear Sir,

We are pleased to forward herewith the newspaper clippings of "Addendum to 51st Annual Report – Comments of Comptroller & Auditor General of India (C&AG)" published in newspapers today i.e. September 06, 2025 in compliance with applicable Regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

This is submitted for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully, For National Fertilizers Limited

(Ashok Jha) Company Secretary

पंजीकृत कार्यालय : स्कोप कॉम्पलैक्स, कोर-III, 7, इन्सटीट्यूशनल एरिया लोधी रोड, नई दिल्ली — 110003, दूरमाष : 011-24360066, फैक्स : 011-24361553 Regd. Office : Scope Complex, Core-III, 7, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003, Tel.: 011-24360066, Fax : 011-24361553

CIN: L74899DL1974GOI007417

Website: http://www.nationalfertilizers.com

mationalfertilizers

• SHAILESH HAZELA, MD & CEO, STELLANTIS INDIA

'India-UK FTA has come as a surprise help to Stellantis'

Five years since entering the Indian market, carmaker Stellantis is gearing up to add more products, expand its reach, and step up production.

Shailesh Hazela, MD and CEO, Stellantis India, spoke to Swaraj Baggonkar on the sidelines of the launch of the Basalt *X,priced at* ₹7.95 lakh, about the company's plans. Excerpts:

Despite having two globally popular brands — Citroen and Jeep — Stellantis has been very slow in the Indian market. Why is that so?

India is a tough market to enter. Every company in the past went through the cycle. We are learning too. We have been here for the past five years. We have seen the customer preferences changing very quickly.

Can you elaborate on that? From basic mobility, consumer choice has moved to a different level where they see the car as an expansion of their living room — products that are aspirational, that become pride of possession. We did

FROM BASIC MOBILITY, CONSUMER

EXPANSION OF THEIR LIVING ROOM

CHOICE HAS MOVED TO A DIFFERENT

LEVEL WHERE THEY SEE THE CAR AS AN

market research to understand the customer. Our strength is in design, engineering, supply chain, supply base and manufacturing plant. We have invested in each of them.

What is Stellantis' retail reach?

We started with our network of 10 outlets in 2021 and gradually moved to 58 by the middle of last year and to 80 by the end of last year. In the last two months alone, we added 30 outlets. We have gone for smaller format showrooms, adopting huband-spoke model. Our point of sale count has risen to 110 and, in the next 6-7 months, our plan is to hit 150.

Since we have dealerships tomers are looking for both, then why not make it a Stellan-

Is it a dual dealership of both Citroen and Jeep? of both the brands, and cus-

> tis Brand House. As of today, more than 50% of our dealership is selling both the brands. The

but very agile and we are looking to get the right product which appeals to the Indian market.

workshops are also capable of

handling both the brands.

You spoke about bringing

Leapmotor to India. What

is the progress on that?

Are there plans to expand the EV range of Stellantis? Stellantis has got plat-



Any plans for getting the Jeep EV?

forms which are multi-

energy. It is a matter of

are at an approval level.

demand and bringing it in a

way that is affordable for us

to sustain longer. But things

It is the free trade agreement (with the UK) which has come as a sudden help. The FTA opens the doors and creates longevity and gives you comfort with regards to the number of years that are there. Stellantis has a production presence in the UK as well.

What is the plant capacity of Stellantis?

We have a plant capacity of 60,000 across three shifts per year. Today we are doing 25,000-30,000 per annum and we want to improve that with the C3X and Basalt X and one more X (model). We do a lot of exports to Asean and African countries.

AI to supervise AI in the next year: Capgemini

OJASVI GUPTA New Delhi, September 5

ORGANISATIONS ARE **PREPARING** to put AI in charge of other AI systems over the next 12 months, according to a new Capgemini report. Some firms are even exploring AI as a supervisorforhumans.Butfewerthan one in three plan to use AI agents

as full employees in the coming years. For most workers, AI will take over tasks, not entire jobs.

The report, based on a survey of over 1,000 executives across 15 countries, underlines the scale of investment. Nearly 9 in 10 organisations have increased spending on generative AI in the pastyear, raising it by an average of 9%. The technology now

makes up about 12% of IT budgets. Still, two-thirds of companies admit they are not ready. pointing to the need for new structures to enable human-AI collaboration.

Rising costs are a growing concern. Over half of organisations reported "bill shocks" from cloud usage as pilots expanded faster than expected.

To cut expenses, many are opting for smaller language models.Proprietary systems remain a preference, but open-source AI is widely used for its costeffectiveness. The focus is shifting from pilots to orchestration. Around half of enterprises scaling AI agents are also trying multi-agent systems to manage connected tasks.

MERIND LIMITED

CIN: U24239MH1958PLC011204 Regd. Office: Readymoney Terrace, 2" Floor, Room No. 5, 167, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 018. Telephone: +91-22-2495 2620 • Email ID: investorrelations@merind.co.in

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 65" Annual General Meeting of the Members of the Company (the "AGM") will be held on Tuesday, 30" September, 2025 at 03:30 p.m. (IST) through two-way Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the businesses set forth in the AGM notice dated 26th August, 2025.

In accordance with the General Circulars dated 8th April, 2020, 13th April 2020, 5th May, 2020, 13th January, 2021, 14th December, 2021, 5th May, 2022, 28" December, 2022, 25" September, 2023 and 19" September, 2024 and all other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs in this regard, if any ('MCA Circulars'), the Notice of the AGM and Annual Report including the Audited Financial Statements for the financial year 2024-25 have been sent in electronic mode to the Members whose email IDs are registered with the Company or the Depository Participant(s) as on 29th August, 2025. The electronic dispatch of Annual Report and the Notice of the AGM to the Members has been completed on 5th September, 2025.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Company is providing the facility to all its Members (holding shares either in physical or in electronic form) to exercise their vote on the resolutions proposed to be considered at the AGM by electronic means through e-voting platform ("remote e-voting") provided by National Securities Depository Limited ("NSDL").

Further, it is also notified to the Members that:

- a) The remote e-voting period begins on Saturday, 27th September, 2025 at 09:00 a.m. (IST) and ends on Monday, 29" September, 2025 at 05:00 p.m. (IST). During this period, Members of the Company holding shares either in physical or electronic form, as on the Record date / cut-off date i.e. Tuesday, 23rd September, 2025 may cast their vote through remote e-voting.
- b) A person, whose name appears in the Register of Members/ Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. Tuesday, 23th September, 2025 will be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the AGM. The voting rights of shareholders shall be in proportion to the number of shares of the Company held by them as on the cut-off date
- c) The remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 p.m. (IST) on Monday, 29" September, 2025.
- d) Please refer to the Notice of AGM for the process and manner of remote e-voting/e-voting. The same is available on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com.
- e) Any person, who becomes a Member of the Company after despatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, 23° September, 2025, may obtain Login ID and Password for remote e-voting by sending a request to evoting@nsdl.co.in and if the Member is already registered with NSDL for remote e-voting, then he can use his existing User ID and Password for casting the vote through remote
- The Members who cast their vote through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM, but shall not be allowed to cast their vote again at the AGM. The Members who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to attend the AGM and cast their vote during the AGM.

In case of any queries/grievances related to remote e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or write to Mr. Rahul Rajbhar at evoting@nsdl.co.in or call at 022 – 4886 7000.

> For Merind Limited Dr. Huzaifa Khorakiwala

By Order of the Board of Directors

Chairman

DIN: 02191870

Date: 5" September, 2025 Place: Mumbai



NATIONAL FERTILIZERS LIMITED (A Govt. of India Undertaking) CIN: L74899DL1974GOI007417 Registered Office: Scope Complex, Core -III, 7,
Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi 110003.
Website: www.nationalfertilizers.com,
Email ID: investor@nfl.co.in; Telephone: 011-24360066, 24361252

ADDENDUM TO 51ST ANNUAL REPORT- COMMENTS OF COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA (C&AG).

Annual Report of the Company for the Financial Year 2024-25 was posted on the website of the Company www.nationalfertilizers.com and sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Registrar and transfer agent/ Depositories. Addendum to the Annual Report with respect to the Comments of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements (Standalone and Consolidated) of the Company for financial year 2024-25 had also been sent to the members of the Company through e-mail and also available on the website of the Company www.nationalfertilizers.com. The same forms part of the Annual Report for the financial year 2024-25.

Place: New Delhi Date: 06.09.2025



For National Fertilizers Limited (Ashok Jha) **Company Secretary**



PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry in India has filed an application with the Employee Provident Fund Organisation ('EPFO') on the 19-08-2025 to surrender the exemption granted to it and transfer Employee's Provident Fund records and balances from the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry Staff Provident Fund to the EPFO w.e.f. 01-10-2025. Once the approval is received from the EPFO, there will be a 'freeze'

period during which the PF trust would not be able to proceed with any Provident Fund related transactions or activities, e.g., approval on nonrefundable withdrawals, loans, transfer and final settlements, etc. After the freeze period is over, members will be able to perform the

abovementioned activities, as and when necessary, directly through the Government EPFO portal. As members cannot proceed with the above transactions during this period, if there is any requirement in the areas as per the points outlined

below, please reach out to the company at the mail id mentioned below to take necessary action before the commencement of the Non-refundable withdrawals / loans (As per the provisions)

- 2. PF transfer i.e., transfer of PF accumulations from old PF account to new PF account
- 3. Final settlement / withdrawal application
- Further, kindly ensure that your KYC information (Bank details,

Beneficiary Nominations, Personal Details) is updated and Aadhaar is linked with your Universal Account Number ('UAN') on the EPFO portal. This is also required to avoid any delay in processing Provident Fund Please note that the above shift will not change the entitlement of the

members of the PF trust to their provident fund. Meanwhile, if you have any gueries, we request you to connect via the

below mentioned e-mail id:

FICCI STAFF PF TRUST TEAM —

E-mail id for PF queries: FICCIHRD@FICCI.COM



MINISTRY OF **COMMERCE &** INDUSTRY Government of India







The GST changes are expected to support and sustain this growth trajectory.

- GST slabs are now simplified to just 5%, 18%, and 40%, making tax compliance easier for businesses.
- It helps tackle challenges like higher tariffs from the US by reducing production costs through lower GST rates.
- Fixing the inverted duty structure means manufacturers can now get quicker refunds, improving their cash flow.
- Earlier, exporters paid more GST on raw materials than on finished goods, which blocked their input tax credit. The new reform solves this issue.
- With exports becoming costlier due to US tariffs, boosting domestic demand is now more important than ever.
- This can lead to higher domestic consumption, giving exporters a cushion against global market shocks.
- Small and medium engineering units will benefit from reduced paperwork and lower costs, helping them stay strong despite international trade pressures.













जनसता

नई दिल्ली (

तापमान अधिकतम-33.2

न्यनतम- २३.७

नई दिल्ली

सूर्यास्त- ०६:३९

6 सितंबर, 2025

खबर कोना

'सीएमश्री' स्कूलों में प्रवेश के लिए परीक्षा अब १३ को

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 5 सितंबर।

दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए नए माडल स्कूल कार्यक्रम 'सीएमश्री' में दाखिले को लेकर अहम बदलाव किया गया है। शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि प्रवेश प्रक्रिया की तारीखों में संशोधन किया गया है। अब कक्षा 6, 7 और 8 में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जबिक एडिमट कार्ड 10 सितंबर से डाउनलोड किए जा सकेंगे। पहले यह परीक्षा 6 सितंबर को होनी थी और प्रवेश पत्र 23 अगस्त को जारी किए जाने थे, लेकिन तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से प्रक्रिया को करीब दो सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। शिक्षा निदेशालय के अनुसार, परीक्षा द्विभाषी ओएमआर प्रारूप में आयोजित की जाएगी।

उत्कृष्ट शिक्षक रत्न सम्मान से किया गया सम्मानित

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 5 सितंबर।

वशिष्ठ धाम सेवा ट्रस्ट ने शिक्षक दिवस के अवसर पर पुष्प विहार स्थित राधा कृष्ण विद्या निकेतन में उत्कृष्ट शिक्षक रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रख्यात शिक्षाविद डा अशोक त्यागी ने छात्रों के व्यक्तित्व के विकास में शिक्षकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। डा त्यागी ने राधा कृष्ण विद्या निकेतन के शिक्षकों को उत्कृष्ट शिक्षक रत्न सम्मान से प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। सम्मानित अतिथि राहल अवस्थी ने पाठचक्रम में कुछ उपयुक्त कौशल विकास कार्यक्रमों को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि शिक्षा प्रणाली को और अधिक रोजगारोन्मुखी बनाया जा सके। इस अवसर पर विशष्ठ धाम सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष रेन शर्मा, ट्रस्ट के वरिष्ठ सलाहकार आशुतोष त्रिवेदी और राधा कृष्ण विद्या निकेतन की प्रधानाचार्य मोनिका भटनागर को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बिपिन मंडल और सामाजिक कार्यकर्ता ओमवती भी उपस्थित थीं।

'अपना घर आवास योजना' के तहत एक घंटे के भीतर बिक गए सभी १५२ डीडीए फ्लैट

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 5 सितंबर

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की 'अपना घर आवास योजना' के तहत पेश किए गए सभी 152 फ्लैट शुक्रवार को बुकिंग शुरू होने के एक घंटे के भीतर ही बिक गए और इससे 100 करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। डीडीए ने 'पहले आओ–पहले पाओ'के आधार पर 152 अतिरिक्त फ्लैट पेश किए थे. जिनमें लोके नायक पुरम के ब्लाक-डी में मध्यम आय वर्ग (एमऑइजी) के 76 फ्लैट और नरेला के सेक्टर ए-1 से ए-4 के ब्लाक-जी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) के 76 फ्लैट शामिल थे। डीडीए के एक बयान में कहा गया. 'योजना को जनता से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और सभी अतिरिक्त फ्लैट एक घंटे के भीतर ही बुक हो गए। किफायती आवास की लगातार बनी मांग को देखते हुए डीडीए ने योजना को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब यह योजना २६ नवंबर, २०२५ तक लागू रहेगी।' डीडीए के अनुसार, दिल्ली के विभिन्न इलाकों

शेरनी महागौरी बीमार, अस्पताल में भर्ती

और श्रेणियों में तूरंत रहने योग्य फ्लैट बुकिंग

के लिए उपलब्ध हैं। बयान में कहा गया, 'लोके

नायक परम और नरेला के फ्लैट 2023 से अब

तक कई योजनाओं के तहत बार-बार पेश किए

गए थे।

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 5 सितंबर

दिल्ली चिडियाघर में बर्ड फ्लू से पक्षियों के लगातार संक्रमित होने के मामले सामने आ रहे हैं। प्रशासन लगातार बर्ड फ्लू के संक्रमण को रोकने के उपाय कर रहा है और बीमार पक्षियों के नमूनों को जांच के लिए 'नेशनल इंस्टीटचूट

फार हाइ सिक्योरिटी एनिमल डिजीज (एनआइएचएसएडी) भोपाल भेजा गया है। लेकिन इसी बीच शेरनी महागौरी भी बीमार हो गई है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बर्ड फ्लू फैलने से दिल्ली चिड़ियाघर के 'पशु विनिमयं कार्यक्रम' पर भी असर पड़ा है। कई वन्यजीव जो अन्य चिडियाघरों से जल्द आने वाले थे और कई जो दिल्ली चिडियाघर से भेजे जा रहे थे, फिलहाल वो रोक दिए गए हैं। बता दें कि कई बीमार पक्षियों की जांच के लिए उनके नमूनों को एनआइएचएसएडी भोपाल भेजा गया है, जांच रपट के बाद ही साफ हो पाएगा कि वो बर्ड फ्लू से पीड़ित थे या अन्य बीमारियों से।

यमुना के जलस्तर में मामूली गिरावट, बाढ़ का खतरा बरकरार

अक्षरधाम मंदिर के पास भी आया पानी, कई इलाकों में सड़कों पर चल रही हैं नाव







बाढग्रस्त मोनेस्ट्री बाजार का दृश्य।

जनसत्ता संवाददाता नई दिल्ली, 5 सितंबर।

यमुना का जलस्तर शुक्रवार को थोड़ा कम हुआ, लेकिन अभी भी यमुना खतरे के निशान के ऊपर नदी बह रही है। मालूम हो कि वर्ष 1963 के बाद पांचवी बार यमुना के उफान ने दिल्लीवालों को डराया है और जलस्तर में होने वाली बढोतरी ने सरकारी इंतजामात में भी खलल डालने का काम किया है।

कई इलाकों में सड़कों पर नाव चल रही है और अक्षरधाम मंदिर के पास भी शुक्रवार को पानी आ गया है। वहीं यमुना के जलस्तर को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय आयोग ने भी अपनी रपट जारी की है। आयोग का कहना है कि 4 सितंबर को लाखों क्यूसेक पानी का बहाव दिल्ली की ओर छोडा गया था लेकिन अब पानी का बहाव कम हो गया है। शुक्रवार शाम चार बजे बैराज से पानी का बहाव 58 हजार क्यूसेक दर्ज किया गया है।

आयोग ने बताया कि शुक्रवार शाम चार बजे दिल्ली में पुराने रेलवे पुल पर जलस्तर 207.18 मीटर है, जबिक खतरे का निशान 205.33 मीटर और लोगों की निकासी स्तर 206 मीटर है। आयोग 5 सितंबर को रात 8 बजे तक यमुना का जलस्तर 207.15 मीटर तक आने की संभावना जताई गई है। हथिनी कुंड से पानी को दिल्ली तक पहुंचने में लगभग 36 घंटे का समय लगता है, इसलिए सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। शाम पांच बजे यमुना का जलस्तर 207.16 मीटर था। आयोग के अनुसार वर्तमान संकेत बता रहे हैं कि दिल्ली में यमना नदी के जलस्तर में गिरावट जारी रहेगी। शनिवार, 6 सितंबर को सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 206.40 मीटर होने की संभावना है। उसके बाद

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार बाढ़ की स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए है। सरकारी अमला बाढ़ प्रभावितों की चौबीस घंटे लगातार मदद कर रहा है। बाढ़ पीड़ितों को भोजन, पानी, चिकित्सा, शौचालय सुविधाओं के अलावा जरूरी मदद लगातार उपलब्ध करवाई जा रही है। जनप्रतिनिधियों के साथ ही बाढ़

बाढ़ की स्थिति पर सरकार 24 घंटे रख रही नजर : मुख्यमंत्री

प्रभावित जिलों के सभी जिला मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचकर सहायता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना का पानी फिलहाल उतार पर है इसलिए दिल्ली के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों को

निर्देश दिए हैं कि वे बाढ़ से प्रभावित फसलों का भी आंकलन करें, ताकि उन्हें उचित मुआवजा देने पर भी गंभीरता पूर्वक विचार किया जा सके। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने कैंप कार्यालय 'मुख्यमंत्री जनसेवा सदन' से संभागीय आयुक्त व सभी जिलों के जिला मजिस्ट्रेट के साथ आनलाइन समीक्षा बैठक की और जरूरी निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों की जान–माल की रक्षा करना हमारी सरकार का प्रमुख दायित्व है।

भी जलस्तर में गिरावट जारी रहने की संभावना है। मालुम हो कि यमुना के जलस्तर के बढ़ने से दिल्ली के छह जिले प्रभावित हुए हैं, इनमें उत्तर, उत्तर-पूर्वी, शाहदरा, पूर्वी, केंद्रीय और दक्षिण-पर्वी जिले शामिल हैं। 206 मीटर का जलस्तर पार करते ही निचले इलाकों में रहने वाले करीब 15,000 लोगों पर सीधा असर पड़ा है। जिलावार बात की जाए तो पूर्वी दिल्ली में सर्वाधिक 7,200 लोग प्रभावित हुए हैं, जहां सात राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। उत्तर-पूर्वी जिले में 5,200 लोगों के लिए 13 राहत शिविर, दक्षिण-पूर्वी में 4,200 प्रभावितों के लिए आठ शिविर, शाहदरा में 30 लोगों के लिए एक शिविर और उत्तरी जिले में 1.350 लोगों के लिए छह राहत शिविर बनाए गए हैं। पशुपालकों की सहायता के लिए पशुपालन विभाग द्वारा चारा और चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध

करवाई जा रही हैं। पूर्वी जिले में जिला प्रशासन और बोट क्लब के संयुक्त प्रयासों से अब तक 5,000 से अधिक लोगों को यमुना खादर क्षेत्र से सुरक्षित निकाला जा चुका है।

भाजपा ने की उच्चस्तरीय बैटक

दिल्ली व देशभर में बनी बाढ की स्थित व राहत कार्यों को लेकर दिल्ली प्रदेश भाजपा ने शक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में की। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा सहित दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री, प्रदेश भाजपा महामंत्री व कोषाध्यक्ष शामिल हए। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली की जनता के सहयोग से राहत सामग्री जुटाकर जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे।

राहत शिविरों में रह रहे लोगों के सामने कई परेशानियां

निर्भय कुमार पांडेय नई दिल्ली, 5 सितंबर।

मयूर विहार फेस-एक स्थित खादर में बाढ़ प्रभावित लोग अब तरह-तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यमुना में जलस्तर बढ़ने के बाद सैकड़ों परिवार के सदस्य पिछले कई दिनों से फ्लाईओवर के नीचे बनाए गए राहत शिविर में रह रहे हैं। प्रभावित लोगों के सामने अब जीवनयापन की समस्या पैदा हो गई है। प्रभावित लोगों ने बताया कि बाढ़ में उनका काफी कुछ सामान बह गया। वे जरूरत के कुछ सामान ही बचा पाए हैं। खुद के लिए जहां खाने-पीने की समस्या हो रही है। वहीं, दूसरी ओर पशुओं के चारे को लेकर भी लोग चिंतित दिखाई दिए। खादर में किराए पर लेकर खेती-बाड़ी करने

वाले धर्मपाल (45) ने बताया कि हर वर्ष कर्ज लेकर फसल लगाते हैं। यमुना खादर में आई बाढ़ में फसल बर्बाद हो गई है। वह अपने पशुओं के साथ फिलहाल मयूर विहार फेस-1 में शिविर में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से अभी तक नुकसान की भरपाई के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार नुकसान की भरपाई के लिए सहायता राशि घोषित करेगी। शिविर में कुछ महिलाएं भी मिली. जिनके बच्चे छोटे हैं। किरन (35) ने बताया कि उनका बेटा अभी मात्र छह-सात महीने का है। इस तरह खुले आसमान के नीचे छोटे बच्चे के साथ रहना बहुत परेशानी भरा है। शाम होते ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है। किरन अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर लगातार चिंतित है। वहीं, लोगों ने जरूरत



खाने-पीने के लिए मशक्कत

शिविर में रहने वाले 25 वर्षीय रवि ने बताया कि पिछले पांच-छह दिनों से वह यहां रह रहे हैं। अधिकतर लोगों को सर्दी-जुखाम और बुखार है। शिविर में खाने के लिए केवल चावल मिल रहा है। बुखार में चावल कैसे खाया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि पानी को लेकर भी लोगों को मशक्कत करनी पड़ती है। रवि ने कहा कि भले ही आगामी कुछ दिनों बाद पानी घट जाए और लोग फिर से खादर में लौट जाएंगे। पर आगे का जीवन मृश्किलों भरा होगा। बाढ़ का बच्चों की पढ़ाई-लिखाई पर अभी से ही असर पड़ने लगा है।

के सामान बर्तन, गद्दे और लकडी की चारपाइयां सड़क पर रखी हुई थी, जबिक बाढ़ प्रभावित लोग समृह में बैठकर यह आंकलन करते नजर आए कि किसको कितना नुकसान हुआ है।

सिविल लाइंस में बाढ़ के दावे गलत: पीडब्लूडी मंत्री

लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने शुक्रवार को सिविल लाइंस इलाके में यमुना नदी का पानी घुसने के दावों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि यह स्थिति नदी में बाढ आने से नहीं बल्कि बारिश के कारण जलभराव का

नतीजा है। मंत्री ने निगम बोध घाट, मोनेस्ट्री मार्केट और आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए कहा, कि यह केवल बारिश के कारण हुआ जलभराव है। सिविल लाइंस इलाके में सड़कों के किनारे नालों के मुख्य द्वार एहतियातन

बंद कर दिए गए हैं ताकि यमुना नदी का पानी सड़कों पर न आए। मंत्री ने कहा कि यमुना और सिविल लाइंस क्षेत्र के बीच एक चौडी स्लिप रोड है, जो रिंग रोड से लगभग 10 फूट नीचे है।

बाढ़ के पानी में लापता शख्स का दो दिन बाद मिला शव

केजरीवाल ने बाढ़ राहत शिविर का दौरा किया, कहा

लोगों को नहीं मिल रही सुविधाएं

जनसत्ता सवाददाता नई दिल्ली, 5 सितंबर।

जनसत्ता सवाददाता

की अपील की।

नई दिल्ली, 5 सितंबर।

गढ़ी मेंढू गांव के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से लापता एक व्यक्ति का शव दो दिन बाद शुक्रवार को बरामद किया गया। मृतक की पहचान गढी मेंढ गांव निवासी ओमबीर (45) के तौर पर की गई है। दरअसल, बाढ के तेज बहाव में डब रही अपनी गाय को बचाने के दौरान वह बह गए था. जिसके बाद बचाव दल के कर्मचारियों ने बाढ प्रभावित क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया।

जानकारी के मुताबिक, ओमबीर गढ़ी मेंडू गांव में परिवार के साथ रहता था। परिवार में पत्नी ओमवती, दो बेटे व एक बेटी है। ओमबीर की दूध की डेयरी थी। उनके घर में दस पशु हैं। परिजनों ने बताया कि बुधवार सुबह गांव में यमना के पानी का स्तर बढ गया। इस दौरान परिजन पशुओं को लेकर पृश्ते पर सुरक्षित स्थान पर चले गए। पर एक गाँय घर में रह गई थी। ओमबीर घर में बंधी उस गाय को बचाने के लिए गया था। उसके साथ गांव के तीन लोग और भी थे। इसी दौरान ओमबीर यमना के तेज बहाव में बह गए। उत्तरी पूर्वी जिला पुलिस के एक कर दी गई है और आगे की जांच जारी है।

आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख

अरविंद केजरीवाल ने शक्रवार को राष्टीय

राजधानी में बाढ प्रभावित लोगों के लिए दिल्ली

सरकार से पर्याप्त राहत सामग्री उपलब्ध कराने

उन्होंने आरोप लगाया कि बाढ

प्रभावित लोगों को खाद्य पदार्थों की

आपूर्ति और उनके लिए तंबू (टेंट) की

व्यवस्था करने में देरी हुई है। पूर्व

मुख्यमंत्री ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के

शास्त्री पार्क इलाके में बने एक राहत

शिविर का दौरा किया। इस दौरान

उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार अफगानिस्तान

में भूकंप पीड़ितों को राहत सामग्री भेज सकती

है, तो दिल्ली के बाढ प्रभावित लोगों को भी

समय पर मदद मिलनी चाहिए। केजरीवाल ने

कहा कि 'मैं देख रहा हूं कि लोगों को दिक्कत

हो रही है। उन्हें समय पर खाना नहीं मिल रहा।

बाढ के तेज बहाव में डूब रही अपनी गाय को बचाने के दौरान बह गया था ओमबीर।

अधिकारी ने बताया कि छानबीन करने पर पता चला कि ओमबीर को आखिरी बार उसी दिन सुबह करीब साढ़े आठ बजे पृश्ता रोड से गांव की ओर जाते हुए देखा गया था। इस सूचना के आधार पर पलिस दलों ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर तलाशी अभियान संचालित किए। उन्होंने कहा कि हालांकि, बार-बार कोशिशों के बाद भी वे ओमबीर को खोजने में विफल रहे। इसी बीच शुक्रवार सुबह करीब 11:00 बजे पुलिस के एक दल ने बचाव कर्मियों के साथ मिलकर गांव के पास के इलाके में उसका शव बरामद किया। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेजा गया है। आगे की कानूनी कार्रवाइ शुरू

चारों तरफ मच्छर हैं। बारिश हो रही है, लेकिन

तंबु कल लगाए गए। यह प्राकृतिक आपदा है।

हम सरकार से आग्रह करते हैं कि लोगों को

सुविधाएं उपलब्ध कराए। पर्याप्त इंतजाम करना

सरकार की जिम्मेदारी है। केजरीवाल ने यह भी

कहा कि पूरे दिल्ली में जलभराव की समस्या है।

उन्होंने कहा कि नालों की सफाई समय पर नहीं

हुई। कई इलाकों में सीवर का पानी

ऊपर आ रहा है और कई जगह पीने

का पानी नहीं है। मैं सरकार से अपील

करता हूं कि लोगों को सुविधाएं

उपलब्ध कराए। केजरीवाल ने केंद्र

की भाजपा नीत सरकार से उत्तर भारत

के बाढ प्रभावित राज्यों को भी मदद

ेदेने का अनुरोध किया। उन्होंने गुरुवार

को आप शासित पंजाब का दौरा किया था, जहां

विनाशकारी बाढ आई है। उन्होंने कहा कि

हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्म्-

कश्मीर और दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत बाढ़

से जूझ रहा है। मैं केंद्र से अपील करता हूं कि

वह लोगों को राहत मुहैया कराए।

गुडलक इंडिया लिमिटेड (2) GOODLUCK पंजीकृत कार्यालयः 509, अरुणाचल बिल्डिंग, बाराखम्भा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 वेबसाईटः www.goodluckindia.com, ईमेलः goodluck@goodluckindia.com

CIN: L74899DL1986PLC050910

शेयर प्रमाण पत्र के खोने की सूचना

कंपनी के अधिनियम, 2013 के सेक्शन 46 और अन्य प्रावधानों के तहत, यहाँ सभी संबंधित लोगों के सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्र खो गयें है और डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अनुरोध किया गया है, विवरण इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	फोलियो नं.	शेयरधारक का नाम	प्रमाण पत्र संख्या	विशिष्ट नं.	शेयरों की संख्य		
1.	0001323	विनोद कुमार थिरानी		000874001- 000878000	4000		

आपत्ति प्राप्त नहीं की जाती है, तो डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र / पुष्टिकरण पत्र, जारी कर दिये जाएंगे।

कृते गुडलक इंडिया लिमिटेड (अभिषेक अग्रवाल)

कम्पनी सचिव



अत्यंत आवश्यक सूचनाः शेयरधारकों हेतु १०० दिवसीय अभियानः "सक्षम निवेशक" केवाईसी का अद्यतन, लाभांश का दावा

प्रिय शेयरधारकों.

स्थानः गाजियाबाद

दिनांक 28.07.2025 से 06.11.2025 तक निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए), कॉपॅरिट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 100 दिवसीय अभियान "सक्षम निवेशक " की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य केवाईसी अद्यतनीकरण, अप्राप्त/अदावाकृत लाभांश और शेयरों का दावा करने के संबंध में शेयरधारकों को जागरूक करना है

हम अपने मूल्यवान शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि यदि शेयर भौतिक रूप में हैं तो बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के साथ ईमेल आईडी, पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाते के विवरण सहित अपने केवाईसी को अद्यतन करें और यदि शेयर डीमैट रूप में हैं, तो संबंधित डीपी के पास अद्यतन करें ताकि विभिन्न सूचना और निर्बाध रुप से लाभांश और भुगतान प्राप्त हो सकें।

कृपया नोट करें कि वित्तीय वर्ष 2016-17 तक की अवधि के लिए दावा न किए गए लाभांश को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफए) में अंतरित कर दिया गया है। कृपया आप इन लाभांशों के लिए उनके पोर्टल https://lepfa.gov.in/login पर दावा प्रस्तुत करें।

सभी पात्र शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे: अपने फोलियो/डीमैट खाते में अपने केवाईसी विवरण को अद्यतन करें।

वित्तीय वर्ष २०२१-२२ से २०२४-२५ तक अप्राप्त लाभांश का दावा करें। किसी भी जानकारी हेतु, कृपया नीचे दिए गए विवरण पर हमारे आरटीए से संपर्क करें: केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

डकाई; केनरा बैंक सेलेनियम टावर बी, प्लॉट ३१ और ३२, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा हैटराबाट-500032 टोल फ्री: 1800 309 4001

ई-मेल: einward.ris@kfintech.com | वेबसाइट: www.kfintech.com

इसके अलावा, डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने केवाईसी को अद्यतन करने के लिए अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डीपी) से संपर्क करें और अप्राप्त /अदावाकृत लाभांश का दावा करने हेतु बैंक आरटीए से संपर्क करें और किसी भी अन्य जानकारी हेतु कृपया hosecretarial@canarabank.com (सचिवीय विभाग, केनरा बैंक) पर ई-मेल करें। कृपया यह भी नोट करें कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025, जो दिनांक 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हुआ और भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 15 अप्रैल 2025 द्वारा अधिसूचित किया गया है, के अनुसार, ऐसे सभी शेयर जिनके लाभांश का भुगतान लगातार सात वर्षों तक नहीं किया गया है या जिन पर दावा नहीं किया गया है, उन्हें भी आईईपीएफ में अंतरित किया जाना आवश्यक है। इसलिए, हम योग्य दावेदारों से अनुरोध करते हैं कि वे बैंक के आरटीए/हमारे पास सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत करके यथाशीघ्र ऐसे शेयरों/ लाभांश का दावा करें। कृते केनरा बैंक

स्थान: बेंगलूरु दिनांक: 06.09.2025

संतोष कुमार बारिक (कंपनी सचिव)



वेबसाइट: www.nationalfertilizers.com, ईमेल आईडी: Investor@nfl.co.in; टेलीफोन: 011-24360066, 24361252

51^{वां} वार्षिक रिपोर्ट का परिशिष्ट – भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की टिप्पणियाँ

कंपनी के वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट को कंपनी की वैबसाइट www.nationalfertilizers.com पर जारी कर दिया गया है एवं उन सभी सदस्यों को सिर्फ एलेक्टोनिक प्रारूप में भेज दिये गए हैं, जिनके ईमेल रजिस्टार एवं टान्सफर एजेंट/डिपॉजिटरियों के पास पंजीकृत हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण (एकल एवं समेकित) पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की टिप्पणियों के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट का परिशिष्ट ईमेल के जरिये कंपनी के सदस्यों के पास भेज दिये गए हें तथा कंपनी की वैबसाइट www.nationalfertilizers.com पर भी उपलब्ध हैं। यह वित्त

स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 06.09.2025



वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

कृते नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड, (अशोक झा) कंपनी सचिव



PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry in India has filed an application with the Employee Provident Fund Organisation ('EPFO') on the 19-08-2025 to surrender the exemption granted to it and transfer Employee's Provident Fund records and balances from the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry Staff Provident Fund to the EPFO w.e.f. 01-10-2025.

Once the approval is received from the EPFO, there will be a 'freeze' period during which the PF trust would not be able to proceed with any Provident Fund related transactions or activities, e.g., approval on nonrefundable withdrawals, loans, transfer and final settlements, etc.

After the freeze period is over, members will be able to perform the abovementioned activities, as and when necessary, directly through the Government EPFO portal.

As members cannot proceed with the above transactions during this period, if there is any requirement in the areas as per the points outlined below, please reach out to the company at the mail id mentioned

below to take necessary action before the commencement of the freeze period:

 Non-refundable withdrawals / loans (As per the provisions) 2. PF transfer i.e., transfer of PF accumulations from old PF

account to new PF account

3. Final settlement / withdrawal application

Further, kindly ensure that your KYC information (Bank details, Beneficiary Nominations, Personal Details) is updated and Aadhaar is linked with your Universal Account Number ('UAN') on the EPFO portal. This is also required to avoid any delay in processing Provident Fund

transactions in future. Please note that the above shift will not change the entitlement of the members of the PF trust to their provident fund.

Meanwhile, if you have any queries, we request you to connect via the below mentioned e-mail id:

FICCI STAFF PF TRUST TEAM = E-mail id for PF queries : FICCIHRD@FICCI.COM

epaper.jansatta.com